

मोटर वाहन विभाग – केरल

वाहन चेकपोस्ट -ऑनलाइन कर और शुल्क भुगतान

- parivahan.gov.in होमपेज में, ऑनलाइन सर्विसेज मेन्यू में **Check Post Tax** चुनें।
- **Border Tax Payment** मेनू में कर भुगतान का चयन करें।
- विजिटिंग स्टेट केरल और सर्विस नेम व्हीकल टैक्स कलेक्शन (**Other State**) का चयन करें और **GO** बटन पर क्लिक करें।
- वाहन प्रारूप में वाहन पंजीकरण संख्या दर्ज करें और **Get Details** बटन पर क्लिक करें। वाहन विवरण दिखाई देगा, यदि वाहन विवरण वाहन में उपलब्ध है।
- सीमा चेक पोस्ट के नाम का चयन करें जिसके माध्यम से वाहन प्रवेश करने का इरादा रखता है।
- वाहन के प्रकार और परमिट के प्रकार के अनुसार आवश्यक पैरामीटर भरें।
- **Temporary Permit** के मामले में आवश्यकता के अनुसार **WEEKLY / MONTHLY** मोड का चयन करें।
- माल वाहनों के कर भुगतान के मामले में (GVW<3000kg) **Quarterly** टैक्स मोड का चयन करें।
- **All India Tourist Vehicles** के कर भुगतान के मामले में, **Quarterly** टैक्स मोड का चयन करें।
- तारीख से कर (**Permit Validity**) का चयन करें और **Calculate Tax** बटन पर क्लिक करें। कर, उपकर, परमिट शुल्क और कुल राशि प्रदर्शित होती है। इसके बाद **Pay Tax** बटन पर क्लिक करें।
- पुष्टिकरण विंडो प्रकट होती है। भुगतान करने के लिए **Confirm** बटन पर क्लिक करें।
- सफल भुगतान के बाद, टैक्स लाइसेंस और अस्थायी परमिट उत्पन्न होता है। **Print** बटन पर क्लिक करें।
- यदि वाहन **Non VAHAN** राज्य से है / डेटा वाहन में उपलब्ध नहीं है, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार विवरण ध्यान से भरें और कर / शुल्क भुगतान और परमिट निर्माण के लिए आगे बढ़ें।